

NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Plot No. 239, South Old Bagadganj, Small Factory Area, Nagpur 440 008. Maharashtra, INDIA.
CIN Number : L15510MH2013PLC249458

+91 712 2778824
+91 712 2721555

info@nakodas.com
www.nakodas.com



Date: - 02nd May, 2022

To,

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE Ltd)
Exchange Plaza, 05th Floor,
Plot No. C-1, Block G,
Bandra Kurla complex, Bandra (E) Mumbai – 400051

NSE Scrip Code: - NGIL

BSE Limited

Listing / Compliance Department,
Phiroze jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

BSE Scrip Code:-541418

Sub: - Intimation as per Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and applicable Regulation of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) - Corrigendum published to Letter of Offer for the Extension of period of Rights Issue of the Company ("Rights Issue").

Dear Sir/Madam,

Pursuant to applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018, Regulation 30 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we enclosed herewith the copies of corrigendum to the Letter of offer published by the company for the Extension of period of Right issue of the company. The details published in the below mentioned Newspapers on 01st May, 2022.

1. Financial Express: English Daily: All India Edition
2. Jansatta: Hindi Daily: All India Edition
3. Dainik Mahasagar: Marathi Daily: Nagpur Edition

You are requested to please take the note of same in your record.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

For Nakoda Group of Industries Limited



Pratul Wate
Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No. : - A49131)

Encl: - As Above

Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2022	Previous Year ended 31st March, 2021	Corresponding Quarter ended 31st March, 2021
1	Total Income from Operations	76,656	268,807	209,728	65,293
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9,132	31,510	18,794	8,119
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12,250	34,628	18,794	8,119
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,870	29,143	15,150	6,788
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11,582	29,033	17,040	5,858
6	Equity Share Capital	3,054	3,054	3,054	3,054
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	166,313	137,296	-
8	Earnings Per Share (of Re.1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	A. Continuing Operations				
	1. Basic	3.57	9.56	5.06	2.29
	2. Diluted	3.57	9.56	5.06	2.29
	B. Discontinued Operations				
	1. Basic	-	-	(0.15)	(0.06)
	2. Diluted	-	-	(0.15)	(0.06)

Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2022	Previous Year ended 31st March, 2021	Corresponding Quarter ended 31st March, 2021
1	Turnover	51,470	181,005	134,560	44,052
2	Profit before tax	9,671	25,345	12,592	5,202
3	Profit after tax	9,275	21,132	10,052	4,611
4	Total comprehensive income/(loss) for the year	9,372	21,317	9,895	4,590

Note:
The above is an extract of the audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended 31.03.2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results for the quarter and year ended 31.03.2022 are available on the websites of the Stock Exchange(s) where the equity share of the Company are listed i.e., www.nseindia.com & www.bseindia.com and also on the Company's website www.ushamartin.com.

Place : Kolkata
Date : 30th April, 2022
Rajeev Jhwar
Managing Director

Usha Martin Limited

Registered Office : 2A Shakespeare Sarani, Kolkata-700 071, India

CIN: L31400WB1986PLC091621

Phone : (033) 71006300 Fax : (033) 2282 9029, 71006400/500, Website: www.ushamartin.com, Email: investor@ushamartin.co.in

Public Announcement

This public announcement is for information purposes only and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI (ICDR) Regulations").

NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED
Corporate Identification Number: L15510MH2013PLC249458

Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra, as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. On July 18, 2016 our Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary viz. M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.

Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur - 440 008, Maharashtra, India
Contact Person: Mr. Pratul Bhalchandra Wate, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: 0712 2778824 | Email-ID: info@nakodas.com | Website: www.nakodas.com

PROMOTERS: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY

ISSUE OF UPTO 27,83,625* EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 120 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 110 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 3,340.35 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 01(ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 04 (FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS APRIL 1, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 12.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 123 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED (THE COMPANY)

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

ISSUE OPEN | ISSUE CLOSES ON MONDAY, MAY 16, 2022
CORRIGENDUM NOTICE TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2022

The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Advertisement supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer. Other terms and conditions of the Rights Issue as provided in the Letter of Offer remain the same.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.
--------------	--	--

FACILITIES FOR APPLICATION IN THIS ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of Letter of Offer.

In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circular and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of the Letter of Offer.

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform to the eligible shareholders that in order to provide a better opportunity to shareholders to execute their rights in the Rights Issue, the Rights Issue Committee of the Board of Directors in their meeting held on Friday, April 29, 2022 has decided to extend the last date for making an application for the Rights Equity Shares of the Company by fourteen (14) days i.e., from Monday, May 02, 2022 to Monday, May 16, 2022.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Rights Issue Application Forms is extended upto Monday, May 16, 2022 (Issue Closing Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Board of Directors or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board of Directors or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "Basis of Allotment" on page 146 of the Letter of Offer.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE AS ON OR BEFORE MAY 12, 2022 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ELIGIBLE TO APPLY IN THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSING AS MONDAY, MAY 16, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, ENTITLEMENT LETTER, APPLICATION FORM AND STATUTORY ADVERTISEMENT EXCEPT FOR THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE AND THE RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF THE POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF CHANGE IN THE ISSUE CLOSING DATE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED A-102, Sea Lord CHS, Above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai - 400 092, Maharashtra, India Telephone: 022 - 28088456 Email: shrenishares@gmail.com Website: www.shreni.in Investor grievance: info@shreni.in Contact Person: Kritika Rupda SEBI Registration Number: INM000012759	 BIGSHARESERVICES PRIVATE LIMITED 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opposite Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 059 Maharashtra, India Contact Details: 022 - 6263 8200 E-mail: rightissue@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor grievance: investor@bigshareonline.com Contact person: Vijay Surana SEBI Registration No: INR000001385	 Mr. Pratul Bhalchandra Wate 239, Bagad Ganj, Nagpur- 440 008, Maharashtra, India Telephone: 0712 2778824 Email: cs@nakodas.com

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

For FOR NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

Pratul Bhalchandra Wate
Company Secretary and Compliance Officer

Our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the SEBI, NSE and BSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.nakodas.com and the website of the Lead Manager at www.shreni.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indra Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur- 302004

No: JDA/EE&T AtoDir.Engg.-I/2022/D-153 Dated: 29.04.2022

NOTICE INVITING BID

NIB No. : EE & TA to Dir. Engg.-I / 3 / 2022-23

Bids are invited for works given below in various zones as per details given :

S. No.	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	A & F	Nature of Work	Last Date
1	JDA2223WLOB00035	1026.00		EE-Housing-I, Concessionaire for Repair/ Retrofit, Develop, Operate & Transfer (RDOT) by converting exiting Government funded vacant houses into Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) for period of 25 years 588 flats at Swapan Lok at Sikar Road, Jaipur.	08.06.2022

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Raj.Samwad/C/1233/2022-23 Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-I



LIC Mutual Fund Asset Management Limited

(Investment Managers to LIC Mutual Fund)

CIN No: U67190MH1994PLC077858

Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020

Tel. No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606

Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 05 of 2022-2023

Half Yearly Unaudited Financial Results of all Schemes of LIC Mutual Fund for the period ended March 31, 2022

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI circulars issued in this regard from time to time, the Unaudited Half Yearly Financial Results for the period ended March 31, 2022, is hosted on the website www.licmf.com in a user friendly and downloadable format on April 30, 2022.

The Unitholders/Investors of all the Schemes of LIC Mutual Fund are requested to take note of the above..

Date : 30/04/2022
Place : Mumbai
For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED
Sd/
Authorized Signatory

As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID and Mobile Number with us to support paper-less communication.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

CANARA ROBECO

Canara Robeco Mutual Fund

Investment Manager : Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001.
Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC070003

NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 09

Swing pricing framework for open ended debt schemes of Canara Robeco Mutual Fund

With a view of safeguarding the interest of small investors against any large redemptions, SEBI vide its circular SEBI/HO/IMD/IMD-II DOF3/P/CIR/2021/631 dated September 29, 2021 introduced provisions pertaining to Swing Pricing Framework for open ended debt schemes (except overnight funds, Gilt funds and Gilt with 10-year maturity funds) with effect from May 01, 2022.

In view of the provisions mentioned in aforesaid circular, a mandatory full swing pricing framework, during market dislocation times (as and when declared by SEBI), is being introduced in all open ended debt schemes of Canara Robeco Mutual Fund (except overnight funds, Gilt funds and Gilt with 10-year maturity funds) as given below:

Meaning of Swing Pricing:

Swing pricing refers to a process for adjusting a fund's Net Asset Value (NAV) to effectively pass on transaction costs stemming from net capital activity (i.e., flows into or out of the fund) to the investors associated with that activity during the life of a fund, excluding ramp-up period or termination. In other words, Swing Pricing is an anti-dilution technique which helps funds manage liquidity risks internally by effectively passing on transaction costs to the unitholder/investors associated with that activity. In a liquidity-challenged environment, quoted bid/ask spreads and overall trading cost can widen and may not be representative of the executed prices that can be achieved in the market. In such circumstances, swing pricing can be a useful mechanism to contribute to protect the interests of existing investors, specifically from the dilution of their holdings; and contribute to protect the value of the investors capital.

Applicability of Swing Pricing Framework:

The swing pricing framework will be made applicable only for scenarios related to net outflows from the debt schemes.

SEBI will determine 'market dislocation' either based on AMFI's recommendation or suo moto. Once market dislocation is declared, it will be notified by SEBI that swing pricing will be applicable for a specified period. Subsequent to the announcement of market dislocation, the swing pricing framework shall be mandated only for open ended debt schemes which:

- Have "High" or "Very High" risk on the risk-o-meter (as of the most recent period at the time of declaration of market dislocation) and
- Potential Risk Class (PRC) cells A-III, B-II, B-III, C-I, C-II and C-III

Minimum swing factor for open ended debt schemes:

Following mandatory swing factor will be applied on redemption and subscription transactions in the above mentioned schemes during market dislocation period announced by SEBI.

Credit Risk of scheme →	Minimum swing factor for open ended debt schemes		
	Class A (CRV* >=12)	Class B (CRV >=10)	Class C (CRV <10)
Interest Rate Risk of scheme ↓			
Class I: (MD <=1 year)	Nil	Nil	1.50%
Class II: (MD <=3 years)	Nil	1.25%	1.75%
Class III: Any Macaulay Duration (MD)	1.00%	1.50%	2.00%

*CRV: Credit Risk Value

Applicability of Swing Pricing to Investors:

When swing pricing mechanism is triggered and swing factor is made applicable during market dislocation, both the incoming and outgoing investors shall get NAV adjusted for swing factor. Swing pricing shall be made applicable to all unitholders at PAN level, with an exemption for redemptions up to Rs. 2 lakhs for each mutual fund scheme for market dislocation.

Illustration on swing pricing - market dislocation as announced by SEBI:

When swing pricing is triggered, the NAV will be adjusted as follows:

Risk-O-meter	PRC	Computed NAV (₹)	Swing Factor Applied	Swing NAV (₹)
High/Very High	A-III	14.0000	1.00%	13.8600
	B-II	14.0000	1.25%	13.8250
	B-III	14.0000	1.50%	13.7900
	C-I	14.0000	1.50%	13.7900
	C-II	14.0000	1.75%	13.7550
	C-III	14.0000	2.00%	13.7200

Disclosures pertaining to NAV adjusted for swing factor:

The scheme performance shall be computed based on scheme NAV before swing adjustment i.e. the unswung NAV.

Disclosures pertaining to NAV adjusted for swing factor along with the performance impact shall be made in the SIDs of respective schemes as per the format prescribed by SEBI and in scheme wise Annual Reports and Abridged summary and the same shall be disclosed on the website prominently only if swing pricing framework has been made applicable for the said mutual fund scheme.

The Swing Price Framework shall be subject to provisions of circulars and guidelines laid down by SEBI and AMFI from time to time.

The relevant sections of SID and KIM of aforesaid scheme(s) of the Canara Robeco Mutual Fund shall stand modified in accordance with the above changes. All other terms and conditions contained in the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the schemes of Canara Robeco Mutual Fund will be applicable and remain unchanged.

Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com to claim their Unclaimed Redemption & Dividend amounts and follow the procedure prescribed therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Date: 30-04-2022
Place: Mumbai
Sd/
Authorized Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

I arrive at a conclusion not an assumption.

Inform your opinion detailed analysis.



The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

आरटीई प्रवेशाला २९ पर्यंत मुदतवाढ

आतापर्यंत २००० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश



येणाऱ्या पालकांसाठी सावलीची व बैठकीची व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी पालकांची आहे. प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या पडताळणी समितीमध्ये एका नवीन सदस्याची निवड करण्यात आली आहे. आरटीई कृती समितीचे अध्यक्ष शाहीद शरीफ यांचा समावेश करण्यात आला. त्यांच्या या निवडीनंतर मात्र शिक्षण विभागात दोन गट पडले असून काहींनी त्यांच्या निवडीचा विरोधही केला. तथापि, येत्या आठ दिवसांत ४००० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कागदपत्रांची पडताळणी करून पारदर्शकपणे करणे हे समितीसमोर आम्हांत आहे.

नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत खासगी अस्थापनांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशाला २९ एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यापूर्वी २० एप्रिल ही प्रवेशाची अंतिम तारीख होती. मात्र कागदपत्रांच्या पडताळणी व मध्यंतरी आलेल्या सुट्यांमुळे बरेच दिवस प्रवेश प्रक्रिया थांबली होती. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात होती. त्याची शिक्षण विभागाने दखल घेत ८ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. नागपूर जिल्ह्यात बुधवार दुपारपर्यंत २००० विद्यार्थ्यांचे

शहरात चोरांचा धुमाकूळ इतवारीत ५ दुकाने फोडली

नागपूर : सध्या शहरात चोरांनी चांगलाच धुमाकूळ घातलेला आहे. दररोज चोरीच्या ५ ते ६ घटना समोर येत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. मध्यरात्रीनंतर शहरात चोरेटे साहजे होणे आणि पोलिसांची त्यांच्यावर नजर न पडणे हे गंभीर आहे. यावरून पोलिसांची गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. शुक्रवारी रात्री चोरांनी इतवारा परिसरातील ५ दुकानांचे कुलूप तोडले. या घटनांमध्ये स्थानिक व्यवसायी दहशतीत आहेत. चोरांनी कसारपुरा, देवघर मोहल्ला आणि खाटिक मोहल्ला परिसरातील लक्ष्मी मेगा मार्ट, दीपक सेल्स व त्यांचे गोदाम, हितेंद्र फॅब्रिक्स, आणि गुदरेव टेक्स्टाईलमध्ये चोरी केली. रात्री ३ ते पहाटे ४.३० दरम्यान ह्या घटना

घडल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून समोर आले आहे. चोरांनी व्यवसायिक परिसरात चोरी तर केली, मात्र त्यांच्या हाती विशेष काहीही लागले नाही. केवळ गळ्यात असलेले १० ते १५ हजार रुपयेच चोरी झाले.

हाताने उचकवले शटर

आश्चर्य म्हणजे, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये केवळ ३ आरोपी कोणत्याही शस्त्राशयास दुकानांचे शटर तोडताना दिसत आहेत. तिघेही मिळून शटर मध्यभागातून वर उचलतात आणि कसारपुरा, देवघर मोहल्ला आणि खाटिक मोहल्ला परिसरातील लक्ष्मी मेगा मार्ट, दीपक सेल्स व त्यांचे गोदाम, हितेंद्र फॅब्रिक्स, आणि गुदरेव टेक्स्टाईलमध्ये चोरी केली. रात्री ३ ते पहाटे ४.३० दरम्यान ह्या घटना

यावरून आरोपी सराईत असून शटर तोडण्यात तबरेज असल्याचे दिसून येते. लक्ष्मी मेगा मार्टच्या गळ्यातून चोरांनी १० रुपयांचे सिक्के ज्यांची एकूण किंमत ३,५०० रुपये आहे चोरी केल्याची माहिती संचालक शेखर जैन यांनी दिली. इतर दुकानदारांनीही विशेष असे काही चोरी झाले नसल्याचे सांगितले.

हुडकेश्वरात ३ घरांचे कुलूप तोडले

हुडकेश्वर ठाण्यांतर्गत चोरांचा धुमाकूळ थांबण्याचे नाव नाही. तीन घरांचे कुलूप तोडून चोरांनी लाखो रुपयांच्या मालावर हातसाफ केला. स्वागतनगर परिसरात राहणारे वैकुंठप्रसाद ताराप्रसाद पांडे (६०) हे कुटुंबासह गत २६ एप्रिलला सायंकाळी कुटुंबासह शहराबाहेर गेले होते. या दरम्यान चोरांनी मागच्या दाराची टिचकनी तोडून आत प्रवेश केला. कपटाने रोख ८० हजार आणि दागिने असा एकूण ४.३० लाख रुपयांच्या मालावर हातसाफ करून फवार झाले. दुसरी घटना न्यू प्रतापनगर परिसरात घडली. पोलिसांनी दीपक रोशे खडसे (३०) च्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदविला. शुक्रवारी रात्री ८.३० वाजताच्या

क्राईम डायरी

अल्पवयीन बेषता

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): पाचपावली पोलिस ठाण्यांतर्गत राहणारी १७ वर्षीय मुलगी अचानक बेपत्ता झाली. गुरुवारी सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास ती घरी कोणाला काही न सांगता निघून गेली. बराच वेळ होऊनही मुलगी घरी न परतल्याने चिंतीत कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला, मात्र ती मिळाली नाही. अखेर तिला कोणीतरी फुस लावून पळवून नेण्याचा संशय व्यक्त करून पोलिसात तक्रार करण्यात आली. पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर अपहरणाचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

विष प्राशन करून आत्महत्या

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): नंदनवन हद्दीत एका महिलेने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. ललिता चंद्रशेखर गोडबोले (३५) रा. कुंभार टोली, जुना बागडंग्र असे मृत महिलेचे नाव आहे. ललिताने गत २६ एप्रिलला दुपारी राहते घरी विष प्राशन केले. शरीरात विष पसरल्याने त्याची प्रकृती खालतावली. कुटुंबीयांनी त्यांना उपचारार्थ मेयो रुग्णालयात भरती केले. त्यांची प्रकृती नाजूक होती. शुक्रवारी सायंकाळी उपचारादरम्यान ललिता यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): वाडी ठाण्यांतर्गत एका व्यक्तीने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. प्रेम रतिराम बागडे (५०) रा. नवी वस्ती, दुर्गाधामना असे मृताचे नाव आहे. शुक्रवारी प्रेम यांनी दुर्गाधामना ग्राम पंचायतजवळील समुद्री माता मंदिर परिसरातील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. दुपारी २ वाजताच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळला आणि घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. वाडी पोलिस घटनास्थळावर पोहोचले. गावकऱ्यांच्या मदतीने त्यांचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढला. प्रेम यांच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

तरुणासह दोघांचा गळफास

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): एमआयडीसी आणि कळमना ठाण्यांतर्गत तरुणासह दोन लोकांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. अक्षय बापूराव तागडे (२६) रा. गेडास लेआऊट, वानाडोंगरी यांनी शुक्रवारी सायंकाळी राहते घरी छाताच्या पंख्याला दोरी बांधून गळफास लावला. रात्री ८ वाजताच्या सुमारास कुटुंबीयांनी त्यांना गळफास लावलेल्या अवस्थेत पाहिले आणि घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. वडील बापूराव यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. दुसरी घटना कळमना ठाण्यांतर्गत घडली. सदानंद संपत चौधरी (५२) रा. फिरके लेआऊट, गुलशननगर असे मृताचे नाव आहे. सदानंद यांनी शुक्रवारी दुपारी राहते घरी खिडकीच्या ग्रीलला दोरी बांधून गळफास लावला. दुपारी २ वाजताच्या सुमारास पत्नी ललीता यांनी त्यांना गळफास लावलेल्या अवस्थेत पाहून घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. सदानंद यांच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही.

महिलेची आत्महत्या

नागपूर, (क्राईम रिपोर्टर): सीताबर्डी ठाण्यांतर्गत एका महिलेने गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना वसंतराव नौक झोपडपट्टी परिसरात घडली. अंजली द्वारका निर्मलकर (४८) असे मृत महिलेचे नाव आहे. अंजलीने शुक्रवारी राहते घरी छाताच्या पंख्याला साडी बांधून गळफास लावला. पति द्वारका घरी आले तेव्हा अंजली गळफास लावलेल्या अवस्थेत होत्या. त्यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. सीताबर्डी पोलिस घटनास्थळावर पोहोचले. पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रवाना केला. आत्महत्येचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही. घरपट्टी तपासवाना त्यांनी आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे. पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.



महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्व संध्येला शहरातील विधान भवन परिसर असे आकर्षक रोषणाईने सजविण्यात आले होते.

सबनिस आणि घोंगे यांना डीजी पदक

जिल्ह्यातून ३० चा समावेश

नागपूर : महाराष्ट्र दिवसाच्या पूर्व संध्येला पोलिस महासंचालकांकडून उत्कृष्ट काम करणारे पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना डीजी ईसिमिया पदकाने सन्मानित करण्यात आले. सीताबर्डी पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार अतुल सबनिस आणि उमरेडचे ठाणेदार प्रमोद घोणे यांच्यासह जिल्ह्यातून ३० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हे पदक जारी करण्यात आले आहे.

सक्रदराचें वाहेतूक झोनेचे पोलिस निरीक्षक जयेश भांडारकर, अंबाझरीचे गजानन कल्याणकर आणि नामदेव गाजुंडे यांचेही नाव



यादीत आहे. शहर गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक ओमप्रकाश सोनटकरे, पोलिस उपनिरीक्षक अक्षय शुक्ला, सफेी कृष्णकुमार (बच्चू) तिवारी, रतन अंबरकर, मोहन शाह, श्रीनिवास मिश्रा, रघुनाथ धुर्वे, दत्तात्रय निनावे, मृदुल नगरे आणि मनीष टोंगे यांचाही यात समावेश आहे. नागपूर ग्रामीणचे एएसआय श्याम आमडापूरकर, बाबा केचे, शेख मन्नान नवर्गाबादे, भवानीप्रसाद मिश्रा, पोहवा साहेबराव बहाले, राजेंद्र सनोडिया, विवेक

दोडके आणि रामनरेश पांडे यांचे नावही यादीत आहे. पोलिस प्रशिक्षक केंद्र नागपूरचे एएसआय संजय तिवारी, दिलीप लहासे, नरेंद्र परिहार आणि वर्षा लोखंडे, पीसीआर विभागातून पोहवा अशोक पाटील आणि जया लोखंडे, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल नागपूरचे विनोद खांडे, संतोष किर्दक, धनराज बलेकर, विशाल र्हागडाले आणि शीतल नेवरे यांचाही यादीत समावेश आहे. शहरात अनेक दिवस सेवा देणारे चंद्रपूरचे डीवायएसपी सुधीर नंदनवार, पोनि अंचल मुदगल आणि नितीनचंद्र राजकुमार हे सुद्धा यादीत आहेत. रविवारी या सर्वांना पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या हस्ते डीजीईसिमिया आणि प्रशासक पत्र देऊन सन्मानित करण्यात येईल.

गोधनीत शाहीर संमेलन थाटात

नागपूर : वैभव सांस्कृतिक कला मंडळाच्या वतीने भव्य शाहीर संमेलन, खडीगमत महोत्सवाचे आयोजन गोधनी (रत्ने) येथे करण्यात आले. या संमेलनामध्ये दोन शाहीरांचा जुगलबंदीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता. याप्रसंगी सुप्रसिद्ध लोकशाहीर निनाद नागडे, सच तसेच शाहीर ललकार चव्हाण, संघ यांनी कार्यक्रम सादर केला. यामध्ये शासकीय धोरणानुसार बेटी पदाव-बेटेचाव, हुंडा बळी, झाडे लावा-झाडेजगवा अशा ज्वलंत विषयांवर गायन व कला सादर करून लोकांना प्रवोधन केले. या कार्यक्रमात शाहीर ज्ञानेश्वर पाटील, सुरेश सहारे, अश्वदीप नेंदेश्वर, दिनेश खडसे, गोधनीग्रामवासियांनी परिश्रम केले.

Public Announcement
This public announcement is for information purposes only and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the Securities Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI (ICDR) Regulations").

NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED
Corporate Identification Number: L15510MH2013PLC249458
Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra, as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. On July 18, 2016 our Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary via M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.
Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur - 440 008, Maharashtra, India
Contact Person: Mr. Pratul Bhalchandra Wate, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: 0712 2778824 | Email-ID: info@nakodas.com | Website: www.nakodas.com

PROMOTERS: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY
ISSUE OF UPTO 27.83,625* EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 120 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 110 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 3,340.35 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 01(ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 04 (FOUR) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS APRIL 1, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 12.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 123 OF THE LETTER OF OFFER.
*Assuming full subscription
NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED (THE COMPANY)
RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED
ISSUE OPEN | ISSUE CLOSES ON MONDAY, MAY 16, 2022
CORRIGENDUM NOTICE TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2022

The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Advertisement supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer. Other terms and conditions of the Rights Issue as provided in the Letter of Offer remain the same.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.
<p>FACILITIES FOR APPLICATION IN THIS ISSUE: In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Circulars no. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 ("SEBI ASBA Circulars"), all investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of Letter of Offer. In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circular and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 134 of the Letter of Offer.</p> <p>LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform to the eligible shareholders that in order to provide a better opportunity to shareholders to execute their rights in the Rights Issue, the Rights Issue Committee of the Board of Directors in their meeting held on Friday, April 29, 2022 has decided to extend the last date for making an application for the Rights Equity Shares of the Company by fourteen (14) days i.e., from Monday, May 02, 2022 to Monday, May 16, 2022. Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Rights Issue Application Forms is extended upto Monday, May 16, 2022 (Issue Closing date). If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Board of Directors or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board of Directors or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, "Basis of Allotment" on page 146 of the Letter of Offer.</p> <p>Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.</p> <p>ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE AS ON OR BEFORE MAY 12, 2022 SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.</p> <p>ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ELIGIBLE TO APPLY IN THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSING AS MONDAY, MAY 16, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, ENTITLEMENT LETTER, APPLICATION FORM AND STATUTORY ADVERTISEMENT EXCEPT FOR THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE AND THE RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMELINE OF THE POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF CHANGE IN THE ISSUE CLOSING DATE.</p>		

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<p>SHRENI SHARES PVT. LTD. SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED A-102, Sea Lord CHS, Above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai - 400 092, Maharashtra, India Telephone: 022 - 28088456 Email: shrenishares@gmail.com Website: www.shreni.in Investor grievance: info@shreni.in Contact Person: Kritika Rupda SEBI Registration Number: INM000012759</p>	<p>BIGSHARESERVICES PRIVATE LIMITED 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opposite Vasant Osh (West), Mumbai - 400 092, Maharashtra, India Telephone: 022 - 6263 8200 E-mail: rightsiissue@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor grievance: investor@bigshareonline.com Contact person: Vijay Surana SEBI Registration No: INR000001385</p>	<p>Mr. Pratul Bhalchandra Wate 239, Bagad Ganj, Nagpur- 440 008, Maharashtra, India Telephone: 0712 2778824 Email: cs@nakodas.com</p>

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked. ASBA Account number and the Designated Branch of the Registrar where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

For FOR NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED
Pratul Bhalchandra Wate
Company Secretary and Compliance Officer
Our Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the SEBI, NSE and BSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; or the website of the Company at www.nakodas.com and the website of the Lead Manager at www.shreni.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.